



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 48] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 1—दिसम्बर 7, 2007 (अग्रहायण 10, 1929)

No. 48] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 1—DECEMBER 7, 2007 (AGRAHAYANA 10, 1929)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग III—खण्ड 4

### [PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय रिजर्व बैंक

सरकारी और बैंक लेखा विभाग

केन्द्रीय कार्यालय

मुंबई, दिनांक 19 नवम्बर 2007

भारत सरकार के राजपत्र में 20 अप्रैल 1946 को प्रकाशित तथा 29 अप्रैल 1954 की अधिसूचना सं. एफ.(8) 70/बी 52 और भारत सरकार के दिनांक 21 फरवरी, 1990 के असाधारण राजपत्र सं. 67 के अंतर्गत यथा संशोधित लोक ऋण अधिनियम 1944 की धारा 28 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा बनाए गए लोक ऋण नियमावली, 1946 के नियम 18 के अनुसरण में अक्टूबर 2007 को समाप्त माह के लिए निम्नलिखित सूची खो गई आदि ऐसी प्रतिभूतियों के बारे में एतद्वारा विज्ञापित की जाती है, जिसके संबंध में इस बात का विश्वास करने के लिए प्रथम दृष्टया आधार मौजूद है कि प्रतिभूतियां खो गयी हैं और आवेदकों का दावा न्यायोचित है। नीचे लिखे गये संबंधित दावेदारों से इतर सभी व्यक्ति जिनका प्रतिभूतियों पर किसी प्रकार का दावा हो, तत्काल महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, सरकारी और बैंक लेखा विभाग, केन्द्रीय ऋण प्रभाग, मुंबई-400 008 को संसूचित करें। सूची दो भागों में विभाजित की गई है। भाग "क" में अभी पहली बार विज्ञापित प्रतिभूतियां शामिल की गई हैं और भाग "ख" में पूर्व विज्ञापित प्रतिभूतियों की सूची दी गई है।

## सूची "क"

मुंबई (फोर्ट) सर्कल

भारत सरकार 5½ प्रतिशत ऋण 1999

प्रतिभूतियों की सं.	मूल्य	जिस व्यक्ति के नाम जारी किया	बकाया ब्याज की तिथि	प्रतिभूति के भुगतान के लिए दावेदार का नाम	प्रतिलिपि आदेश तिथि तथा संख्या
1	2	3	4	5	6
बीवाय-032464	10,000/-}	एम.एन. गोगटे}	4.11.1991}	एम.वाय. जोशी}	महाप्रबंधक के दिनांक
बीवाय-032465	10,000/-}	एल.वी. आपटे}		एस.आर. आपटे}	03.10.2007 के आदेश
बीवाय-032466	5,000/-}	के.सी.एम. भाटवडेकर}		एम.एल. आपटे}	तथा केन्द्रीय कार्यालय
		आर.बी. आपटे}		एस.डी. दांडेकर}	डायरी संख्या 379 दिनांक
		डी.पी. दांडेकर}		ए.एस. मेहेंदळे}	4.10.2007
		या कोई दो लोग}			

## सूची "ख"

मुंबई (फोर्ट) सर्कल

प्रतिभूतियों की सं.	मूल्य	जिस व्यक्ति के नाम जारी किया	बकाया ब्याज की तिथि	प्रतिभूति के भुगतान के लिए दावेदार का नाम	प्रतिलिपि आदेश तिथि तथा संख्या
1	2	3	4	5	6

—नहीं—

जे. एम. बाबा  
सहायक प्रबंधक

दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया

चैन्नई-600 034, दिनांक 5 अक्टूबर 2007

## (चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)

3एससीए(4)/1/2005-2006 : यह संस्था सूचित करती है कि चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के अधिनियम 1988 के विनियम 18 के खंड 20(1) के क्लॉज (बी) के विखंड(1) के एक्ट, 1949 के अंतर्गत निम्नलिखित सदस्यों के नाम उनकी प्रार्थना के कारण उनके नाम सदस्यता के रजिस्टर से उनके नाम के समक्ष दी गई तिथि से रद्द किए जाते हैं ।

क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	निष्कासित तिथि
1.	000854	श्री श्रीनिवासन आर	31/03/2005
2.	005822	श्री थेंस पी ओ	31/03/2006
3.	033927	श्री सुंदर रविन्द्रन	01/04/2005

(डा.) अशोक हल्दिया  
सचिव

## (चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)

3एससीए(4)/2/2005-2006 : यह संस्था सूचित करती है कि चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के अधिनियम 1988 के विनियम 18 के खंड 20 के विखंड (1) के क्लॉज (ए) के एक्ट, 1949 के अंतर्गत निम्नलिखित सदस्यों के नाम उनकी मौत के कारण सदस्यता के रजिस्टर से से उनके नाम के समक्ष दी गई तिथि से रद्द किए जाते हैं ।

क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	निष्कासित तिथि	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	निष्कासित तिथि
1.	000905	श्री रामकृष्णन आर	27/12/2005	18.	006591	श्री प्रह्लाद रॉव एस के	08/03/2005
2.	000960	श्री शिवरामकृष्णन ए के	05/01/2006	19.	006809	श्री वैकट रॉव मारुवादा	09/09/2005
3.	001074	श्री नीलकंठ अईयर पी आर	19/08/2004	20.	007907	श्री रमनार्जयलूर रामनाथियर	22/12/2005
4.	001732	श्री स्वामीनाथन एम एस	09/04/2005	21.	008102	श्री नाहर अरविन्द कुमार	11/05/2004
5.	001958	श्री सारंगपानी के आर	07/07/2005	22.	008162	श्री बालकृष्णन के वी आर	09/12/2005
6.	002778	श्री भस्करारेड्डी के एस	19/04/2005	23.	008786	श्री चन्द्रशेखर मेनन के ए	05/10/2004
7.	003154	श्री राधामनोहरण पी	12/09/2005	24.	009291	श्री रंगास्वामी वी सी	24/09/2005
8.	003356	श्री नारायणा बेल्लूर रॉव	19/09/2004	25.	009347	श्री देशपांडे अनंत गोविंद रॉव	25/06/2005
9.	003767	श्री सुब्बा रॉव एम	16/05/2005	26.	009609	श्री सेल्वारजन एम सी	04/05/2005
10.	004201	श्री चिन्नानारायणन एआर एन	13/01/2005	27.	012829	श्री नारायणन वी	06/11/2004
11.	004687	श्री पिल्लई सी पी	17/04/2005	28.	012950	श्री गोपालन ए आर	24/04/2005
12.	004984	श्री पीटी सत्यनारायण	03/01/2005	29.	013663	श्री आनंद चंद जी	25/06/2005
13.	004995	श्री सुकुमारमेनन पी	25/12/2005	30.	018131	श्री विश्वनाथन एस	06/03/2001
14.	005441	श्री विश्वेश्वरा गांधी वी	09/02/2005	31.	018256	श्री श्रीनिवास एम ए	09/06/2005
15.	005484	श्री नागराजन एन	22/02/2005	32.	018441	श्री अनंतरमन एन	06/10/2004
16.	006038	श्री लक्ष्मनन सी	29/03/2005	33.	018867	श्री सुरेश चन्द्र रेड्डी पी	12/12/2005
17.	006535	श्री बालसुब्रमण्यन के के	17/07/2005	34.	019166	श्री रामचन्द्रन वी	10/09/2005

क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	निष्कासित तिथि	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	निष्कासित तिथि
35.	019644	श्री नागराजन के	05/04/2005	49.	027271	श्री सुदर्शन रॉय बी	23/11/2005
36.	019667	श्री रामराजू रामबाबू	16/11/2005	50.	027366	श्री नारायणन एस	09/07/2004
37.	019886	श्री महेश्वराप्पा बी डी	03/08/2005	51.	027906	श्री प्रसाद पी के वी वी	19/06/2005
38.	020662	श्री सत्यनाराण जी एन	28/03/2005	52.	029906	श्री जैनुनाबिदीन के बी ए	12/06/2004
39.	021190	श्री कुमार के एस एस एस	02/09/2004	53.	031671	श्री रामामूर्ति विजय	05/06/2005
40.	021296	श्री देसाई एम डी	03/01/2006	54.	051244	श्री रंगनाथन पी एम	18/04/2005
41.	021430	श्री शिवारमन आर	31/10/2005	55.	200162	श्री संपत कुमार एस	20/02/2005
42.	021640	श्री सेकर एम	24/09/2005	56.	200345	श्री दासु मिरियला	19/07/2005
43.	021876	श्री जनारदन के	20/07/2005	57.	201685	श्री श्रीधर आर	23/06/2005
44.	022025	श्री कस्तूरीरंगन आर	24/07/2005	58.	203009	श्री जगम मोहन रेड्डी के वी	25/10/2005
45.	022857	श्री सुरेश पी	16/06/2005	59.	205686	श्री नागदीप के एस	22/01/2005
46.	023073	श्री अमरनाथ टी आर	22/05/2005	60.	210731	श्री अनिल लोआ	18/03/2005
47.	024945	मिस गीता रामचन्द्र	14/01/2006	61.	213073	श्री अजैज मोरुज रोहवाला	22/03/2006
48.	025430	श्री थॉमस के टी	02/10/2005				

(डा.) अशोक हल्दिया  
सचिव

RESERVE BANK OF INDIA  
DEPARTMENT OF GOVERNMENT & BANK ACCOUNTS  
CENTRAL DEBT DIVISION

Mumbai, the 19th November 2007

In pursuance of Rule 18 of the Public Debt Rules, 1946 made by the Government of India under Section 28 of the Public Debt Act, 1944 and published in the Gazette of 20th April, 1946 [as amended under the Notification No. F (8)/70-B/52 dated the 29th April, 1954 and the Notification in Extra Ordinary Gazette No. 67 dated 21st February 1990], the following list of securities lost etc. in respect of which prima facie ground exists for believing that the securities have been lost and the claim of applicant is just for the month ended October, 2007 is hereby advertised. All persons other than the respective claimants named below, who have any claim upon these securities should communicate immediately with Chief General Manager, Reserve Bank of India, Central Office, Department of Government and Bank Accounts, Central Debt Division, Mumbai-400008.

The list has been divided into two parts List "A" being securities now advertised for the first time and List "B" being the list of securities previously advertised.

List "A"  
MUMBAI (FORT) CIRCLE  
5½% Government of India Loan-1999

No. of Security	Value in Rs./Grams	In whose name issued	From what date bearing interest	Name(s) of the claimant(s) for issue of duplicate and/or payment of discharge value	No. and date of order issued
1	2	3	4	5	6
BY032464	10,000/-	M. N. Gogate	4-11-1991	M. Y. Joshi	General Manager's
BY032465	10,000/-	L. V. apte		S. R. Apte	orders dated
BY032466	5,000/-	K. C. M. Bhatwadekar		M. L. Apte	3-10-07 Central
		R. B. Apte		S. D. Dandekar	Office Diary
		D. P. Dandekar		A. S. Mehendale	No. 379 dated
		any two of these		M. Y. Joshi	4-10-2007

List "B"  
MUMBAI (FORT) CIRCLE

No. of Security	Value in Rs./Grams	In whose name issued	From what date bearing interest	Name(s) of the claimant(s) for issue of duplicate and/or payment of discharge value	No. and date of order issued
1	2	3	4	5	6
-Nil-					

J. M. BAVA  
Asstt. Manager

## THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

Chennai-600 034, the 5th October 2007

(Chartered Accountants)

3\$CA(4)/1/2005-2006 In pursuance of Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 20 of the Chartered Accountants Act, 1949, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has removed from the Register of Members of this Institute at their request with effect from date(s) mentioned against the names of the following members :-

S.NO.	MRN	MEMBER NAME & ADDRESS	REMOVAL DATE
1	000854	MR. SRINIVASAN R	31/03/2005
2	005822	MR. THOMAS P O	31/03/2006
3	033927	MR. SUNDAR RAVINDRAN	01/04/2005

(Dr.) ASHOK HALDIA  
Secy.

## (Chartered Accountants)

3SCA(4)/2/2005-2006 In pursuance of Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section 20 of the Chartered Accountants Act, 1949, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has removed from the Register of Members of this Institute on Account of Death with effect from date(s) mentioned against the names of the following members :-

S.NO.	MRN	MEMBER NAME & ADDRESS	REMOVAL DATE	S.NO.	MRN	MEMBER NAME & ADDRESS	REMOVAL DATE
1	000905	MR. RAMAKRISHNAN R	27/12/2005	26	009609	MR. SELVARAJAN M C	04/05/2005
2	000960	MR. SIVARAMAKRISHNAN A K	05/01/2006	27	012829	MR. NARAYANAN V	06/11/2004
3	001074	MR. NEELAKANTAAYYAR P R	19/08/2004	28	012950	MR. GOPALANAR	24/04/2005
4	001732	MR. SWAMINATHAN M S	09/04/2005	29	013663	MR. ANAND CHAND G	25/06/2005
5	001958	MR. SARANGAPANI K R	07/07/2005	30	018131	MR. VISWANATHAN S	06/03/2001
6	002778	MR. BHASKARAREDDY K S	19/04/2005	31	018256	MR. SRINIVAS MA	09/06/2005
7	003154	MR. RADHAMANO HARAN P	12/09/2005	32	018441	MR. ANANTHARAMAN N	06/10/2004
8	003356	MR. NARAYANA BELLUR RAO	19/09/2004	33	018867	MR. SURESH CHANDRA REDDY P	12/12/2005
9	003767	MR. SUBBA RAO M	16/05/2005	34	019166	MR. RAMACHANDRAN V	10/09/2005
10	004201	MR. CHINNANARAYANAN AR N	13/01/2005	35	019644	MR. NAGARAJAN K	05/04/2005
11	004687	MR. PILLAI C P	17/04/2005	36	019667	MR. RAMARAJU RAMABABU	16/11/2005
12	004984	MR. PEETI SATYANARAYAN	03/01/2005	37	019886	MR. MAHESWARAPPA B D	03/08/2005
13	004995	MR. SUKUMARAMENON P	25/12/2005	38	020662	MR. SATYANARAYANA G N	28/03/2005
14	005441	MR. VISWESWARA GANDHI V	09/02/2005	39	021190	MR. KUMAR K S S S	02/09/2004
15	005484	MR. NAGARAJAN N	22/02/2005	40	021296	MR. DESAI M D	03/01/2006
16	006038	MR. LAKSHMANAN C	29/03/2005	41	021430	MR. SIVARAMAN R	31/10/2005
17	006535	MR. BALASUBRAMANIAN K K	17/07/2005	42	021640	MR. SEKAR M	24/09/2005
18	006591	MR. PRAHALLADA RAO S K	08/03/2005	43	021876	MR. JANARDANAN K	20/07/2005
19	006809	MR. VENKATA RAO MARUVADA	09/09/2005	44	022025	MR. KASTURIRANGAN R	24/07/2005
20	007907	MR. RAMANAYALUR RAMANATHIER	22/12/2005	45	022857	MR. SURESH P	16/06/2005
21	008102	MR. NAHARARVIND KUMAR	11/05/2004	46	023073	MR. AMARNATH T R	22/05/2005
22	008162	MR. BALAKRISHNAN K V R	09/12/2005	47	024945	MS. GEETHA RAMACHANDRA	14/01/2006
23	008736	MR. CHANDRASEKHARA MENON K A	05/10/2004	48	025430	MR. THOMAS K T	02/10/2005
24	009291	MR. RENGHASWAMI V C	24/09/2005	49	027271	MR. SUDARSANA RAO B	23/11/2005
25	009347	MR. DESHPANDEANANT GOVINDRAO	25/06/2005	50	027366	MR. NARAYANAN S	09/07/2004

S.NO.	MRN	MEMBER NAME & ADDRESS	REMOVAL DATE
51	027906	MR. PRASAD P K V V	19/06/2005
52	029906	MR. ZAINULABIDIN K B A	12/06/2004
53	081671	MR. RAMAMURTHI VIJAY	05/06/2005
54	051244	MR. RANGANATHAN P M	18/04/2005
55	200162	MR. SAMPATH KUMAR S	20/02/2005

S.NO.	MRN	MEMBER NAME & ADDRESS	REMOVAL DATE
56	200345	MR. DASU MIRIYALA	19/07/2005
57	201685	MR. SRIDHAR R	23/06/2005
58	203009	MR. JAGAN MOHAN REDDY K V	25/10/2005
59	205686	MR. NAGADHEEP K S	22/01/2005
60	210731	MR. ANIL LOYA	18/03/2005
61	213073	MR. AZIZ MOIZ ROHAWALA	22/03/2006

(Dr.) ASHOK HALDIA  
Secy.